

GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र Delhi Gazette



असाधारण

EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 230]	दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 5, 2019/भाद्र 14, 1941	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 199
No. 230]	DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 5, 2019/BHADRA 14, 1941	[N.C.T.D. No. 199

भाग—IV

PART—IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली सरकार

GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा निदेशालय

अधिसूचना

दिल्ली, 5 सितम्बर, 2019

फा. सं. 1/1085/2017/टीई/एडी/27.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 24 सितम्बर, 1968 की अधिसूचना सं. एस.ओ. 3532 के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए संघ लोक सेवा आयोग के पूर्व अनुमोदन से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के अन्तर्गत व्याख्याता, व्यावसायिक स्नातक के पद की भर्ती पद्धति के संबंध में निम्नलिखित भर्ती नियम बनाते हैं, अर्थात्:

- संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ** :- (1) इन नियमों को व्याख्याता, व्यावसायिक स्नातक भर्ती नियमावली, 2019 कहा जायेगा।
(2) ये शासकीय राजपत्र में अपने प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।
- पदों की संख्या, वर्गीकरण तथा वेतनमान** :- उक्त पदों की संख्या, इनका वर्गीकरण तथा इससे संलग्न वेतनमान इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम (2) से (4) में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।
- भर्ती पद्धति, आयु सीमा तथा अन्य योग्यता** :- उक्त पदों की भर्ती पद्धति, आयु सीमा, योग्यता एवं इनसे संबंधित अन्य मामलों उक्त अनुसूची के कॉलम (5) से (13) में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।
- अयोग्यता** :- ऐसा कोई भी व्यक्ति
(क) जो किसी व्यक्ति के जीवित पति/पत्नी के होते हुए विवाह करता है या विवाह का अनुबंध करता है; या
(ख) जो एक जीवित पति/पत्नी के होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह कर चुका है या विवाह अनुबंध कर चुका है, वह उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा;

शर्त यह है कि यदि सरकार संतुष्ट है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति एवं विवाह के अन्य पक्षकार पर लागू व्यक्तिगत कानून के अंतर्गत अनुमत्त है और इस बात से संतुष्ट हो जाने पर कि ऐसा करने के लिये विशेष आधार है/हैं किसी भी ऐसे उम्मीदवार को इस नियम के प्रवर्तन की छूट दे सकती है।

5. **शिथिल करने की शक्ति** :-जहां राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार का यह मत हो कि ऐसा करना आवश्यक अथवा समीचीन है, तो वह कारणों को अभिलिखित करते हुए संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से आदेश द्वारा व्यक्तियों की किसी श्रेणी के सम्बंध में इन नियमों के उपबंध में से किसी भी उपबंध को शिथिल कर सकती है।
6. **बचाव:-** इन नियमों की किसी भी बात का केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों और अन्य विशेष वर्गों के व्यक्तियों के लिये उपबन्धित किये जाने के लिये आरक्षण, आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

अनुसूची

पदनाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	पे बैंड एवं ग्रेड पे/ वेतनमान	क्या चयन पद अथवा गैर चयन पद है	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
व्याख्याता, व्यावसायिक स्नातक	* 128 (2019) ऑटोमोबाइल-08 रैफ्रीजरेशन एवं एयर कंडीशनिंग - 16 निर्माण प्रौद्योगिक - 16 साफ्टवेयर डिप्लेपमेंट -40 मोबाईल कम्प्यूनकेशन - 32 पावर डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट - 08 प्रिंटिंग प्रौद्योगिकी - 08 * इसमें परिवर्तन कार्यभार पर निर्भर।	'क' वर्ग सामान्य केन्द्रीय सेवा राजपत्रित, अलिपिकीय	पे बैंड -3 15,600-39,100/- रुपये जमा अकेडमिक ग्रेड पे 6000 रुपये	लागू नहीं	पैंतीस वर्ष से अधिक नहीं (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी आदेशों या अनुदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के लिये 5 वर्ष तक शिथिलनीय) टीप : आयु सीमा निर्धारण के लिए निर्णायक तिथि संघ लोक सेवा के विज्ञापन के अनुसार होगी।

सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों से अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य योग्यताएं	क्या सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए निर्धारित शैक्षिक योग्यता एवं आयु सीमा पदोन्नति वाले उम्मीदवारों पर भी लागू होगी।	परीवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/ आमेदन द्वारा विभिन्न पद्धतियों से भरे जाने वाले रिक्त पदों का प्रतिशत
(7)	(8)	(9)	(10)
अनिवार्य योग्यताएं: ऑटोमोबाइल : किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय /संस्थान से स्नातक या स्नातकोत्तर स्तर पर प्रथम श्रेणी सहित ऑटोमोबाइल मकैनीकल /मकैनीकल इंजिनियरिंग (ऑटो) / मकैनीकल इंजिनियरिंग (ऑटोमोबाइल) में बी.ई. /बी.टैक. तथा एम.ई./एम.टैक.। रैफ्रीजरेशन एवं एयर कंडीशनिंग : किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय /संस्थान से मकैनीकल (वैकल्पिक या विशेष विषय के रूप में रैफ्रीजरेशन एवं एयर कंडीशनिंग) में बी.ई. / बी.टैक. ; तथा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय /संस्थान से स्नातक या स्नातकोत्तर स्तर पर प्रथम श्रेणी सहित रैफ्रीजरेशन एवं एयर कंडीशनिंग / मकैनीकल (रैफ्रीजरेशन एवं एयर कंडीशनिंग एक विषय के रूप में) में एम.ई. / एम.टैक.। निर्माण प्रौद्योगिक : मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/ संस्थान से सिविल इंजिनियरिंग / सिविल इंजिनियरिंग (निर्माण प्रौद्योगिकी) / निर्माण प्रौद्योगिकी /इंजिनियरिंग या भवन तथा निर्माण	लागू नहीं	एक वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा नोट : पदधारी के प्रतिनियुक्ति पर या लम्बी बीमारी के कारण या अध्ययन अवकाश या अन्य परिस्थितियों के कारण एक वर्ष या लम्बी अवधि के लिए कार्य से अलग रहने के कारण रिक्त पद को केन्द्र सरकार के अधिकारियों से भरा जा सकता है। क. मूल संवर्ग/विभाग में नियमित आधार पर समरूप पदधारण करने वाले; तथा (ख) कॉलम 7 में सीधी भर्ती के लिए यथानिर्धारित शैक्षणिक योग्यताएं एवं अनुभव रखने वाले। (केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से तुरन्त पूर्वधारित किसी अन्य गैर संवर्ग पद में प्रतिनियुक्ति की अवधि भी सम्मिलित है। यह सामान्यतः

<p>प्रौद्योगिकी /सिविल एवं रूलर इंजिनियरिंग /सिविल इंजिनियरिंग एवं प्लानिंग /सिविल तथा इन्फ्रास्ट्रक्चर इंजिनियरिंग /सिविल टेक्नोलोजी /कंस्ट्रक्शन इंजिनियरिंग /कंस्ट्रक्शन इंजिनियरिंग तथा प्रबन्धन/निर्माण प्रौद्योगिकी एवं प्रबंधन में स्नातक उपाधि ; तथा</p> <p>मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय /संस्थान से स्नातक या स्नातकोत्तर स्तर पर प्रथम श्रेणी सहित सिविल इंजिनियरिंग / सिविल इंजिनियरिंग (निर्माण प्रौद्योगिकी) / निर्माण प्रौद्योगिकी /इंजिनियरिंग या भवन तथा निर्माण प्रौद्योगिकी /सिविल एवं रूलर इंजिनियरिंग /सिविल इंजिनियरिंग एवं प्लानिंग / सिविल तथा इन्फ्रास्ट्रक्चर इंजिनियरिंग /सिविल टेक्नोलोजी /कंस्ट्रक्शन इंजिनियरिंग तथा प्रबन्धन/ निर्माण प्रौद्योगिकी एवं प्रबंधन /सोयल मकेनिकस तथा फाउंडेशन इंजिनियरिंग /स्ट्रक्चरल तथा फाउंडेशन इंजिनियरिंग/ स्ट्रक्चरल इंजिनियरिंग तथा कंस्ट्रक्शन / स्ट्रक्चरल इंजिनियरिंग तथा निर्माण प्रबन्धन में स्नातकोत्तर उपाधि ।</p> <p>साफ्टवेयर डिप्लोमेट: मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/ संस्थान से स्नातक या स्नातकोत्तर स्तर पर प्रथम श्रेणी सहित कम्प्यूटर विज्ञान तथा अभियांत्रिकी/ सूचना प्रौद्योगिकी /कम्प्यूटर प्रौद्योगिकी में बी.ई./ बी.टैक. /एम.ई. /एम.टैक. अथवा</p> <p>जिन प्रत्याशियों ने दिनांक 13.3.2010 के एआईसीटीई राजपत्र के प्रकाशन से पूर्व निम्नलिखित विषयों में दाखिला प्राप्त कर लिया था वे भी विचारणीय होंगे :</p> <p>मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय /संस्थान से स्नातक या स्नातकोत्तर स्तर पर प्रथम श्रेणी सहित एम.सी.ए./एम.एस.सी. स्तर या एम.ई./ एम.टैक. स्तर सूचना प्रौद्योगिकी /गणित / भौतिकी/ इलेक्ट्रॉनिक्स /कम्प्यूटर विज्ञान में एम.सी.ए. /एम0एस0सी0 तथा संबद्ध विषय सहित कम्प्यूटर विज्ञान /सूचना प्रौद्योगिकी में एम.ई. / एम.टैक. ।</p> <p>मोबाईल कम्प्यूनकेशन : मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय /संस्थान से स्नातक या स्नातकोत्तर स्तर पर प्रथम श्रेणी सहित इलेक्ट्रॉनिक्स एवं कम्प्यूकेशन इंजीनियरिंग में बी.ई. /बी.टैक. तथा एम. ई./ एम.टैक. उपाधि ।</p> <p>पावर डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट – मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय /संस्थान से इलेक्ट्रीकल इंजीनियरिंग (पावर डिस्ट्रीब्यूशन एक विषय सहित) / इलेक्ट्रीकल एवं इलेक्ट्रॉनिक्स (पावर सिस्टम) / इलेक्ट्रीकल एवं इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग / इलेक्ट्रीकल एवं पावर इंजीनियरिंग /इलेक्ट्रॉनिक्स एवं पावर इंजीनियरिंग में बी.ई. / बी.टैक. ; तथा</p> <p>मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय /संस्थान से स्नातक या स्नातकोत्तर स्तर पर प्रथम श्रेणी सहित एडवांसड इलेक्ट्रीकल पावर सिस्टम /इलेक्ट्रॉनिक्स पावर सिस्टम / इलेक्ट्रीकल एवं पावर इंजीनियरिंग / इलेक्ट्रीकल डिवाइस एवं पावर सिस्टम /इलेक्ट्रीकल इंजीनियरिंग (इलेक्ट्रॉनिक्स एवं पावर) / इलेक्ट्रीकल पावर एवं एनर्जी सिस्टम / हाई बोल्टेज एवं पावर सिस्टम इंजीनियरिंग / हाई बोल्टेज इंजीनियरिंग /पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एवं कंट्रोल / पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सिस्टम /पावर सिस्टम एवं कंट्रोल /पावर सिस्टम एवं कंट्रोल ऑटोमेशन /पावर</p>		<p>तीन वर्षों से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण द्वारा नियुक्ति हेतु अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्ति की अन्तिम तारीख को छप्पन (56) वर्षों से अधिक नहीं होगी।</p>
--	--	---

<p>सिस्टम / पावर सिस्टम एवं ऑटोमेशन / पावर सिस्टम कंट्रोल एवं ऑटोमेशन इंजीनियरिंग / इलैक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में एम.ई./एम.टैक. उपाधि ।</p>			
<p>प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी : मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय / संस्थान से स्नातक या स्नातकोत्तर स्तर पर प्रथम श्रेणी सहित प्रिंटिंग में बी.ई./बी.टैक. तथा एम.ई./एम.टैक. उपाधि ।</p>			
<p>टीप-1 : यदि श्रेणी/डिविजन नहीं दी गई है तो जोड़ में कम से कम 60 प्रतिशत अंकों को प्रथम श्रेणी/डिविजन के समकक्ष माना जाएगा। यदि कोई ग्रेड पाइंट प्रणाली अपनाई गई है, तो संचित ग्रेड पाइंट औसत (सीजीपीए) को समकक्ष अंकों में निम्न प्रकार परिवर्तित किया जाएगा।</p>			
<p>ग्रेड पाइंट अंकों का प्रतिशत</p> <p>6.25 55 प्रतिशत</p> <p>6.75 60 प्रतिशत</p> <p>7.25 65 प्रतिशत</p> <p>7.75 70 प्रतिशत</p> <p>8.25 75 प्रतिशत</p>			
<p>टीप-2 अन्यथा सुयोग्य उम्मीदवारों के मामले में लिखित में कारणों को अभिलेखबद्ध करते हुए योग्यताएं संघ लोक सेवा आयोग के विवेक पर शिथिलनीय है।</p>			
<p>टीप-3 यदि चयन की किसी अवस्था में संघ लोक सेवा आयोग के अभिमत से अनुसूचित जातियों या जनजातियों के लिए आरक्षित रिक्त पदों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले इन जातियों के उम्मीदवारों के पर्याप्त संख्या में मिलने की संभावना नहीं है, तो अनुभव संबंधी योग्यताएं कारणों को अभिलेखबद्ध करते हुए संघ लोक सेवा आयोग के विवेक पर शिथिलनीय है।</p>			

यदि पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति /आमेलन द्वारा भर्ती होनी हो तो ग्रेड जिनसे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/ आमेलन किया जाना है	यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति हो तो इसकी संरचना क्या है?	वे परिस्थितियाँ जिनमें भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श लिया जाना है।
(11)	(12)	(13)
लागू नहीं	<p>‘क’ वर्गीय विभागीय स्थायीकरण समिति</p> <p>1. मुख्य सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार – अध्यक्ष</p> <p>2. संबंधित विभाग का प्रशासनिक सचिव – सदस्य</p> <p>3. निदेशक, प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा विभाग – सदस्य</p>	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक है।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल के आदेश से तथा उनके नाम पर,

रजनीश सिंह, संयुक्त निदेशक/संयुक्त सचिव, प्रशि. एवं तकनीकी शिक्षा

DEPARTMENT OF TRAINING AND TECHNICAL EDUCATION

NOTIFICATION

Delhi, the 5th September, 2019

F.No. F.1/1085/2017/TE/AD/27.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution of India read with Government of India, Ministry of Home affairs notification number S. O. 3532 dated the 24th September 1968, the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi, with the prior approval of the Union Public Service Commission, is pleased to frame the following recruitment rules, regarding the method of recruitment to the post of Lecturer, Bachelor of Vocational under the Department of Training and Technical Education, Government of National Capital Territory of Delhi, namely:

- 1. Short title and commencement:** - (i) These rules may be called the Lecturer, Bachelor of Vocational Recruitment Rules, 2019.
(ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. Number of posts, classification and Scale of pay:** - The number of posts, their classification and the scale of pay attached thereto, shall be as specified in column (2) to (4) of the Schedule attached thereto.
- 3. Method of Recruitment, Age limit and other qualification:** - The method of recruitment to the said post, age limit, qualifications and other matters connected therewith shall be as specified in column (5) to (13) of the said Schedule.
- 4. Disqualifications:** No person,
 - (a) Who has entered or contracted marriage with the person having a spouse living or
 - (b) Who having a spouse living, has entered into or contracted marriage with any person;
 shall be eligible for appointment to any of the said posts :
 Provided that Government may, if satisfied that such a marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for doing, exempt any person from the operation of these rules.
- 5. Power to relax:** - Where the Government of National Capital Territory of Delhi is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, and in consultation with Union Public Service Commission, relax any of the provision of these Rules with respect to any class or category of person.
- 6. Saving:** - Nothing in these rules shall affect reservations and other concessions required to be provided for the scheduled castes and scheduled Tribes and other specified category of persons in accordance with orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the Post.	Number of Posts.	Classification.	Level in the Pay Matrix.	Whether selection or non- selection post.	Age limit for Direct recruits.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
LECTURERS, Bachelor of Vocational	128* (2019) *subject to variation dependent on workload. Automobile- 08 Refrigeration and Air Conditioning - 16 Construction Technology- 16 Software Development – 40 Mobile Communication- 32 Power Distribution Management – 08 Printing Technology – 08 Total – 128 Posts	General Central Service, Group 'A' (Gazetted), Non – Ministerial.	Pay Band-3, Rs. 15,600-39,100 Plus Academic Grade Pay Rs. 6000/-.	Not applicable.	Not exceeding thirty five years. (Relaxable for Government Servants Up to five years' in accordance with the instructions/ order issued by the Central Government). Note: The crucial date for determining the age limit shall be as advertised Union Public Service Commission.

Educational and Other qualification required for direct recruits.	Whether age or educational qualification prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods.
(7)	(8)	(9)	(10)
<p>Essential Qualification:</p> <p>Automobile:</p> <p>-----</p> <p>B.E./B.Tech and M.E./M.Tech in Automobile/Mechanical/Mechanical engineering (AUTO)/ Mechanical Engineering (Automobile) with first class either at Bachelor's or Master's level from a recognized University/Institute.</p> <p>Refrigeration and Air Conditioning:</p> <p>-----</p> <p>B.E./B.Tech in Mechanical (Studied air conditioning and refrigeration as elective or special subject) from a recognized University/Institute; And</p> <p>M.E./M.Tech. in Refrigeration and Air Conditioning/Mechanical (with Refrigeration and Air conditioning as one of subject) with first class either at bachelor's or Master's level from a recognized University/Institute.</p> <p>Construction Technology:</p> <p>-----</p> <p>Bachelor's degree in Civil Engineering/Civil Engineering (Construction Technology)/ Construction Technology/Engineering or Building and Construction Technology/Civil and Rural Engineering/Civil engineering and planning/Civil and Infrastructure engineering/Civil Technology/Construction Engineering/Construction engineering and management/Construction Technology and management from a recognized University/Institute; And</p> <p>Master's degree in Civil Engineering/Civil Engineering (Construction Technology)/ Construction Technology/Engineering or Building and Construction Technology/Civil and Rural Engineering/Civil engineering and planning/Civil and Infrastructure engineering/Civil Technology/Construction Engineering/Construction engineering and management/Construction Technology and management/Soil Mechanics and foundation Engineering/Structural and Foundation Engineering/Structural Engineering and Construction/Structural Engineering and Construction Management with first class either at Bachelor's or Master's level from a recognized University/Institute.</p> <p>Software Development:</p> <p>-----</p> <p>B.E./B.Tech. and M.E./M.Tech. in Computer Science and Engineering/Information Technology/Computer Technology from recognized University/Institute with first class either at Bachelor's or Master's level. OR</p> <p>Candidates acquired/secured admissions in the given below streams before publication of AICTE Gazette</p>	Not applicable.	One year.	<p>By direct recruitment.</p> <p>Note: Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled on deputation basis from officers of the Central Government:</p> <p>(a) Holding analogous post on regular basis in the parent cadre/department; and</p> <p>b) Possessing educational qualifications and experience prescribed for direct recruits under column (7).</p> <p>(Period of Deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization/ department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years. The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty six years as on the closing date of receipt of applications).</p>

dated 13/05/2010 are also to be considered:

MCA/M.Sc. in Information Technology/ Mathematics/Physics/ Electronics/Computer Science and allied subjects with M.E./M.Tech. in Computer Science/Information Technology from a recognized University/Institute with first class either at MCA/M.Sc. level or M.E./M.Tech. level.

Mobile Communication:

B.E./B.Tech and M.E./M.Tech degree in Electronics and Communication Engineering with first class either at Bachelor's or Master's from a recognized university/Institute.

Power Distribution Management:

B.E./B. Tech in Electrical Engineering (with Power Distribution as one of the subject)/Electrical and Electronics (Power System)/Electrical and electronics engineering/Electrical and power engineering/Electronics and power engineering from a recognized university/Institute; And

M.E./M.Tech degree in Advanced Electrical power system/Electronic power system/Electrical and power engineering/electrical devices and power systems/Electrical engineering (electronics & power)/Electrical power & energy systems/Electrical power engineering/Electrical power system/High voltage and power systems engineering/High voltage engineering/Power electronics and control/power electronics and power systems/power electronics and systems/Power system and control/Power system and control automation/Power systems/Power systems and automation/Power systems control and automation engineering/Electrical engineering with first class either at Bachelor's or Master's level from a recognized university/Institute.

Printing Technology:

B.E./B.Tech and M.E./M.Tech degree in Printing with first class either at Bachelor's or Master's level from a recognized university/Institute.

Note 1: If a class/division is not awarded, minimum of 60% marks in aggregate shall be considered equivalent to first class /division. If a Grade point system is adopted, the CGPA will be converted into equivalent marks as below :-

Grade point	Equivalent Percentage of marks
6.25	55%
6.75	60%
7.25	65%
7.75	70%
8.25	75%

Note-2: Qualifications are relaxable at the discretion of the U.P.S.C., for reasons to be recorded in writing, in the case of Candidates otherwise well qualified.

Note-3: The qualification(s) regarding experience is/ are relaxable at the discretion of the U.P.S.C. for reasons to be recorded in writing in case of candidates belonging to Scheduled Caste/Scheduled Tribe, if at any stage of selection, the UPSC is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the posts reserved for them.			
--	--	--	--

In case of recruitment by promotion/ deputation / absorption, grades from which promotion/ deputation/ absorption to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment.
(11)	(12)	(13)
Not applicable.	Group “A” Departmental Confirmation Committee: 1. Chief Secretary, Government of National Capital Territory of Delhi - Chairman 2. Administrative Secretary of the concerned Department – Member 3. Director, Department of Training and Technical Education- Member	Consultation with Union Public Service Commission necessary.

By Order and in the Name of the Lieutenant Governor,
National Capital Territory of Delhi,

RAJANISH SINGH, Jt. Director, TTE